

# हिन्दी गायन प्रतियोगिता का रिपोर्ट

हर वर्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कोयम्बतूर के तरफ से संयुक्त हिन्दी पखवाडा समारोह मनाया जाता है। इस समारोह के दौरान विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और विजेताओं को पुरस्कार भी दिये जाते है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तरफ से दस प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सभी प्रतियोगिताएँ विभिन्न स्थानों में आयोजित किया जाता है जिसमें सभी केन्द्रीय सरकारी संस्थानों से कर्मचारियाँ भाग लेते है। इस दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बतूर को महिलाओं के लिये हिन्दी गायन प्रतियोगिता का आयोजन करने की जिम्मेदारी सौपा।

दिनांक 27.09.2012 को वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बतूर में 3.00 बजे हिन्दी गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें कोयम्बतूर जिला के सभी सरकारी कार्यालयों से करीब 17 महिला कर्मचारियों ने भाग लिया। इनकी गायन क्षमता को परखने के लिये निर्णयकर्ताओं के रूप में श्रीमती बीना सुरेश एवं श्रीमती मधुमिता दासगुप्ता को बुलाया गया।

श्री वि.कु.वा.बाचपई, वैज्ञानिक-सी एवं हिन्दी नोडल अधिकारी ने सभी प्रतिभागियों एवं श्रोताओं का स्वागत कर निर्णयकर्ताओं से आग्रह किया कि वे इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। पूंगोदै कृष्णन, हिन्दी अनुवादक ने निर्णयकर्ताओं को पुष्प गुच्छा देकर उन्हें सम्मानित किया। फिर सभी प्रतिभागियों ने अपना अपना प्रदर्शन

सभी के सम्मुख व्यक्त किया। सभी ने बहुत अच्छे एवं मनमोहक गीत गाकर श्रोताओं को भी प्रोत्साहित किया।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे निदेशक जी डॉ.एन.कृष्णकुमार, भा.व.से. ने स्थूल एवं सूक्ष्म रूप से बहुत ही सहायता की है। उनके लिये मैं सदैव अभारी हूँ और डॉ. बी.गुरुदेव सिंह, वैज्ञानिक-जी एवं हिन्दी अध्यक्ष का भी इस कार्यक्रम को आगे बढाने में पूर्ण योगदान रहा है। उनके लिये भी मैं सदैव अभारी हूँ। अन्त में इस संस्था के हिन्दी समिति के द्वारा सभी को धन्यवाद देकर इस कार्यक्रम का समापन किया गया।

## इस कार्यक्रम के दौरान लिये गये कुछ चित्र





